



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 450]
No. 450]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 1983/अग्राहायण 1, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 1983/AGRAHAYANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

सं० 311/83—सीमाशुल्क

मानीटरी समिति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियत कीमतों पर
विक्रय करता है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह
तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा०सं० 370/64/83 सीमाशुल्क-I]

सा०का०नि० 855(अ):—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क
टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय
15 के अन्तर्गत आने वाले ताड़ के स्टीयरिन को, जब उसका
साबुन, ग्रीज या वसा अम्ल के विनिर्माण के लिए भारत में
आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर
उत्प्रेरणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना
मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक
है:

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता, यदि वास्तविक
उपयोक्ता नहीं है तो, साबुन ग्रीज या वसा अम्ल के विनिर्माण
में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित ताड़ के
स्टीयरिन का, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस निमित्त गठित
1069 GI/83

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd November, 1983
No. 311/83-CUSTOMS

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers
conferred by sub-section (1) of section 25 of the
Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central
Government being satisfied that it is necessary in
the public interest so to do, hereby exempts Palm
Stearin, falling within Chapter 15 of the First
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of
1975), when imported into India for the manu-
facture of soap, grease or fatty acids, from so
much portion of the duty of customs leviable
thereon under the said First Schedule as is in
excess of the amount calculated at the rate of
15 per cent ad-valorem :

(1)

Provided that the importer, if not an actual user, sells the imported Palm Stearin to actual users engaged in the manufacture of soap, grease or fatty acids at prices fixed for that purpose by the Monitoring Committee constituted by the Ministry of Commerce in this behalf.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1984.

[F. No. 370/64/83-Cus-I.]

सं० 312/83-सोमाशुल्क

सांका० नि० 856(अ) :— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित सोमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 126/83-सोमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना को अनुसूची में क्रम सं० 239 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“240 सं० 311/83-सोमाशुल्क, ता० 22 नवम्बर, 1983।”

[सं० 370/64/83-सोमाशुल्क-I]

एन० शशिधरन, अवर सचिव

No. 312/83-Customs

G.S.R. 856(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 126/83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 239 and the entry relating thereto, the following Serial, No. and entry shall be inserted, namely :—

“240. No. 311/83-Customs, dated the 22nd November, 1983”.

[F. No. 370/64/83-Cus-I.]
N. SASIDHARAN, Under Secy.